

## शिक्षा ऋण योजना (एनएसएफडीसी/एनएसटीएफडीसी) ।

निगम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के निर्धन परिवारों के मेधावी छात्रों/छात्राओं जो धन के अभाव से अपनी व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षा अध्ययन को जारी नहीं रख सकते हैं, उनके लिए शिक्षा ऋण राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के सौजन्य से अनुमोदित व्यवसायों में ऋण प्रदान करवाता है ताकि वे अपना अध्ययन जारी रख सके ।

### योजना की मुख्य विशेषताएँ ।

क्रमांक	विवरण	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
(i)	ऋण सीमा अधिकतम	मु0 10.00 लाख रुपये	मु0 5.00 लाख रुपये
(ii)	ब्याज दर	4% वार्षिक महिलाओं के लिए 0.5% की ब्याज में छूट	6% वार्षिक
(iii)	ऋण अदायगी अवधि	मु0 7.50 लाख रुपये तक = 10 वर्ष मु0 7.50 लाख रुपये से अधिक 10.00 लाख रु0 तक = 15 वर्ष	5 वर्ष
(iv)	वित्तीय स्रोत	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के सौजन्य से सीधे तौर पर ।	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के सौजन्य से सीधे तौर पर ।
(v)	पात्रता	1) परिवार की वार्षिक आय सीमा:- क) ग्रामीण क्षेत्र मु0 98,000/-रु ख) शहरी क्षेत्र मु0 1,20,000/-रु	क) ग्रामीण क्षेत्र मु0 98,000/-रु ख) शहरी क्षेत्र मु0 1,20,000/-रु
		2) आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए । 3) वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्ध रखता हो । 4) मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान का नियमित छात्र हों । 5) आवेदक किसी बैंक या किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था का ऋण दोषी नहीं होना चाहिए ।	

## ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण योजना ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के निर्धन परिवारों के भेदावी छात्र जो धन के अभाव से अपनी व्यवसायिक व तकनीकी उच्च शिक्षा अध्ययन को जारी नहीं रख सकते हैं उनके लिए निम्न शिक्षा ऋण प्रदान करता है ताकि वे अपना अध्ययन जारी रख सकें ।

### योजना की मुख्य विशेषतायें:-

#### (क) योजना:

- 1) मैट्रिक स्तर के ऊपर व्यवसायिक एवं तकनीकी विषयों में मान्य प्राप्त शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाना ।
- 2) ऋण सीमा:- : 5 वर्ष के अध्ययन के लिए अधिकतम ऋण मु 75,000/-₹०
- 3) ब्याज दर : ब्याज मुक्त
- 4) अनुमोदित विषय/कोर्स :  
(व्यवसायिक एवं तकनीकी) एम०बी०बी०एस०, एम०डी०, एम०एस०, जी०ए०एम०एस०, नसिंग, एल०एल०बी०पी०एच०डी०, बी०एड, जे०बी०टी०, तकनीकी डिप्लोमा व डिग्री, होटल मैनेजमैन्ट, पायलट प्रशिक्षण, कृषि बागवानी में स्नातकोत्तर अध्ययन इत्यादि ।

#### (ख) वित्तीय स्रोत: हिं०प० अनु०जाति एवं अनु० जनजाति विकास निगम ।

#### (ग) पात्रता:

- 1) आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखता हो व हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी हो ।
- 2) परिवार की वार्षिक आय मु 1,00,000/-₹० से कम हो ।
- 3) मान्य प्राप्त शिक्षा संस्थान का नियमित छात्र हो ।
- 4) वित्तीय संस्थाओं का ऋण दोषी न हो ।